



## THE ASIAN SCHOOL, DEHRADUN

(SESSION :2022-23)

### WINTER HOLIDAY HOMEWORK WORKSHEET-1

CLASS:VI

SUBJECT: HINDI

1. Attempt the worksheet in your subject homework notebook.
2. The worksheet is based on the topics which have been taught previously.
3. The worksheet is meant for practice and recapitulation and shall be discussed by the subject teacher once the classes resume.

प्र.1 निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनिए :-

गद्यांश-१

झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई को घुड़सवारी के साथ-साथ घोड़ों की भी अच्छी परख थी। एक बार घोड़ों का एक व्यापारी रानी के दरबार में आया। उसके पास एक जैसे दिखने वाले दो घोड़े थे। उसे विश्वास था कि रानी दोनों घोड़ों का एक दाम लगाएंगी, मगर रानी ने कुछ देर देखने के पश्चात् एक घोड़े का दाम एक हजार रुपये और दूसरे घोड़े का दाम मात्र पचास रुपये लगाया। व्यापारी ने आश्चर्यचकित होकर रानी से पूछा “रानी जी, दोनों घोड़ों की शक्ल, रंग, कद-काठी में कोई फर्क नहीं है, फिर भी आपने दाम में इतना फर्क क्यों कर दिया?” रानी ने कहा, “जिस घोड़े का दाम मैंने एक हजार रुपये लगाया है, वह उत्तम कोटी का स्वस्थ घोड़ा है, और जिस घोड़े का दाम मैंने पचास रुपये लगाया है, वह किसी रोग का शिकार है और उसकी उम्र भी कम है।” रानी की सूझ-बूझ और बुद्धिमानी को देखकर व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ।

- (क) व्यापारी क्या लेकर दरबार में आया ?
- (ख) रानी ने दूसरे घोड़े का क्या दाम लगाया ?
- (ग) पहले घोड़े में क्या खास बात थी ?
- (घ) गद्यांश के लिए उचित शीर्षक छाँटिए ।
- (ङ) ‘उत्तम’ शब्द का विलोम लिखिए ।

गद्यांश-२

भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित जम्मू व कश्मीर एक छोटा- सा राज्य है। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुन्दरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। श्रीनगर इसी राज्य की राजधानी है। श्रीनगर झेलम नदी के दोनों तटों पर बसा बहुत सुन्दर शहर है। एक तट से दूसरे तट तक जाने के लिए झेलम नदी पर कई पुल बने हैं। श्रीनगर में एक बहुत बड़ी और बहुत सुन्दर झील है। इस झील का नाम ‘डल झील’ है।

(क) जम्मू व कश्मीर भारत की कौन-सी सीमा पर स्थित है ?

(ख) श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है ?

(ग) श्रीनगर किस राज्य की राजधानी है ?

(घ) श्रीनगर में स्थित झील का नाम बताइए ।

(ङ) गद्यांश में से कोई दो संज्ञा और दो विशेषण शब्द छांटकर लिखिए ।

**प्रश्न 2. निम्नलिखित विषयों पर पत्र लिखिए --**

(क) अनुचित व्यवहार के लिए प्रधानाचार्य को क्षमा-याचना पत्र लिखिए ।

(ख) आपने अपनी सर्दियों की छुट्टियाँ कैसे बिताई , इस विषय में बताते हुए मित्र को पत्र लिखिए ।